



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2001/पौष 6, 1923

No. 642]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2001/PAUSA 6, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2001

सं. 131/2001-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 923(अ).—अभिहित प्राधिकारी, तुर्की और कोरिया आर०पी० में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 [1975 का 51] की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं० 5402.42 के अंतर्गत आने वाली पालिएस्टर्स के भागतः सूतोन्मुख [पी.ओ.वाई.] जिसे इसके बाद 'विषयगत माल' कहा गया है। के आयात के मामले में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 23 नवम्बर, 2001 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि,—

[क। तुर्की और कोरिया आर०पी० जिसे इसके बाद 'विषयगत देश' कहा गया है। के निर्यातक विषयगत माल को उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप पाटन हुआ है;

[ख। भारतीय उद्योग को तात्त्विक क्षति पहुंची है,

[ग। विषयगत देशों से आयातों से संचयी रूप से क्षति कारित हुई है;

और विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत माल के सभी आयातों पर, अभिहित प्राधिकारी ने, अंतिम अवधारण के लंबित रहने तक, पाटनरोधी शुल्क को अनंतिम रूप से अधिरोपित करना आवश्यक समझा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ [पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण। नियम 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा 12। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर, तुर्की और कोरिया आर०पी० में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं० 5402.42 के अंतर्गत आने वाले पालिएस्टर्स के भागतः सूतोन्मुख [पी०ओ०वाई०] पर, जब उसका इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 12। में वर्णित निर्यातक द्वारा निर्यात और भारत में आयात किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ 13। में उल्लिखित रकम प्रति किलोग्राम के बराबर दर से प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

देश	निर्यातक का नाम	प्रतिपाटन शुल्क प्रति कि०ग्रा० अमरीकी डालर।
[1]	[2]	[3]
तुर्की	मै०सासा डूपोन्ट सबान्सी पोलिऐस्टर ए०एस०, तुर्की	0.351
	मै० कॉरटेक्स मैन्सूकेट सबातू वी०ई० टिकारेट ए०एस०, तुर्की। कॉरटेक्स।	0.391
	अन्य निर्यातक	0.441
कोरिया आर०पी०	सभी निर्यातक	0.358

2 इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटित शुल्क 26 जून, 2002 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी होगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रतिपाटित शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू “विनिमय दर” वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 [1962 का 52] की धारा 14 की उपधारा [3] के खंड [क] के उपखंड [i] के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय [राजस्व विभाग] की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और “विनिमय दर” के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन “प्रवेश पत्र” के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/211/2001-टीआरयू]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2001

No. 131/2001-CUSTOMS

G.S.R. 923(E).— WHEREAS in the matter of import of Partially Oriented Yam (POY) of polyesters (hereinafter referred to as ‘the subject goods’), falling under sub-heading No. 5402.42 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from Turkey and Korea RP, the designated authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd November, 2001, has come to the conclusion that—

- (a) the exporters from Turkey and Korea RP (hereinafter referred to as ‘the subject countries’) have been exporting the subject goods below normal value resulting in dumping;
- (b) the Indian industry has suffered material injury;
- (c) the injury has been caused cumulatively by the dumped imports of the subject goods from the subject countries;

and the designated authority has considered it necessary to impose anti-dumping duty, provisionally pending final determination, on all imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rule 1995, the Central Government, on the basis of the above findings of the designated authority, hereby imposes on Partially Oriented Yam (POY) of polyesters, falling under sub-heading No. 5402.42 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from Turkey and Korea RP and exported by exporters specified in column (2) of the Table annexed hereto, and imported into India an anti-dumping duty at the rate specified in column (3) of the said Table.

Table

Country	Name of the exporter	Anti dumping duty (US \$ per kg.)
(1)	(2)	(3)
Turkey	M/s. SASA Dupont Sabanci Polyester AS, Turkey	0.351
	M/s. Korteks Mensucat Sabatu Ve Ticaret AS, Turkey, (Korteks)	0.391
	Other exporters	0.441
Korea RP	All exporters	0.358

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 26th day of June, 2002, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for the determination of the "rate of exchange" shall be the date of presentation of the "bill of entry" under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/211/2001-TRU]
VIVEK PRASAD. Under Secy.

